



50 हजार के नकली नोटों समेत चार गिरफ्तार

- हिंदी न्यूज़
- उत्तर प्रदेश
- संभल

Publish Date: Fri, 31 Jul 2020 06:06 AM (IST)



पुलिस ने कार सवार चार लोगों को नकली नोटों समेत पकड़ा। उनके पास से पाच सौ रुपये के 100 नकली नोट बरामद हुए। दो सौ रुपये के आठ असली नोट और उनके साइज के कटे हुए कागज भी पुलिस ने बरामद सम्भल, जेएनएन: पुलिस ने कार सवार चार लोगों को नकली नोटों समेत पकड़ा। उनके पास से पाच सौ रुपये के 100 नकली नोट बरामद हुए। दो सौ रुपये के आठ असली नोट और उनके साइज के कटे हुए कागज भी पुलिस ने बरामद किए। पकड़े आरोपितों में तीन उत्तराखंड व एक मुरादाबाद का निवासी है।

नकासा थाना प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र सिंह धामा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक क्षेत्र में नकली नोटों को खपाने के लिए आ रहे हैं। टीम ने सिरसी-बिलारी रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच बिलारी की तरफ से एक लग्जरी कार आते हुए दिखाई दी तो पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया। उसमें सवार चार युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से पाच सौ रुपये के नकली नोट की एक गड्डी मिली। 50 हजार रुपए नकली नोट और दूसरे के पास एक और गड्डी थी, जिसमें चार ऊपर और चार नीचे 200 रुपये के असली नोट लगे थे। उनके नीचे उसी साइज में कटे कागज थे। पुलिस चारों को थाने ले आई। पूछताछ के दौरान पकड़े आरोपितों ने बताया कि नकली नोट को बाजार में चलाते हुए लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। पूछताछ के अपने नाम राजेश गिरि निवासी अशोक सम्राट गांधी नगर थाना मझोला मुरादाबाद, अनिल कुमार, पवन कुमार, हरपाल निवासी ग्राम धर्मपुर थाना जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड बताया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपितों के नेटवर्क का पता कराया जा रहा है।

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/sambhal-city-four-arrested-with-fake-currency-20575883.html>